

**जामिया-ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम:जेएमआई-ओएफडीपी:  
फैकल्टी मेंबर्स के लिए आनलाइन टीचिंग-लर्निंग क्षमता निर्माण**

प्रिय साथियों

कोरोनावायरस वायरस:कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि लाकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कदम उठाने पड़े जिससे इस बीमारी को आगे फैलने से रोका जा सके। इसकी वजह से कालेज और विश्वविद्यालयों में आमने-सामने की शिक्षा पद्धति को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा है। इन हालात में जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराने जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाना पड़ सकता है। शिक्षा के साथ ही ऐसा करना छात्रों की सामाजिक-भावनात्मक सेहत के लिए भी ज़रूरी है।

मुझे मालूम है कि जामिया के अध्यापक पहले से ही विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। आप में से कई व्हाट्सएप, ब्राडकास्ट, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म से अपने छात्रों को लेक्चर देने से लेकर पढ़ाई की सामग्रियां मुहैया करा रहे हैं। आप में से कई वीडियो लेक्चर और ईमेल से भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस मक़सद से आप में से कई लोग गूगल क्लासरूम, स्काइप, ज़ूम, सिस्को वेबकास्ट, गूगल हैंगआउट्स वैगरहा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

जामिया ने संस्थागत रूप से भी गूगल सूट के ज़रिए ऑनलाइन शिक्षा सुविधा शुरू करदी है और विश्वविद्यालय के अध्यापक गूगल हैंगआउट्स, गूगल मीट्स और गूगल क्लासरूम पर अपने एकाउंट्स खोल सकते हैं। वे जामिया के अपने आधिकारिक 'ईमेल एकाउन्ट' से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए छात्रों से संपर्क कर सकते हैं। जामिया की लाइब्रेरी भी रिमोट एक्सेस के माध्यम से सब्सक्राइब और ओपन एजुकेशन रिसोर्स मुहैया करा रही है।

छह अप्रैल से शुरू हो रहे "जेएमआई- ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट":जेएमआई-ओएफडीपी: नामक दो दिवसीय सात सत्रों के कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए जामिया के एफटीके-सीआईटी डायरेक्टर से कहा गया है कि वे जामिया के अध्यापकों को जेएमआई-ओएफडीपी-1 पर अपने को रजिस्टर कराएं। यह रजिस्ट्रेशन, 'पहले आओ , पहले पाओ' के आधार पर होगा।

जेएमआई-ओएफडीपी-1 पूरा करने वाले अध्यापकों को जामिया सर्टिफिकेट भी देगा। फैकल्टी मेंबर्स से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर हिस्सा लें।

आपकी अच्छी सेहत की कामना करती हूं। दूर रह कर भी मिलकर शिक्षा जारी रखें।

**प्रो नजमा अख्तर**  
कुलपति